



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 2005/माघ 28, 1926

No. 163]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 2005/MAGHA 28, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2005

का.आ. 216(अ)—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर देहात जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के 245.000 कि.मी. से 255.000 कि.मी. तक का संनिर्माण (चार लेन) का बनाने के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और उनका सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर देहात जिले में राष्ट्रीय उच्चमार्ग संख्या-25 के 245.000 कि.मी. से 255.000 कि. मी. तक अर्जन की जाने वाली भूमि का संरचना सहित अथवा संरचना रहित का संक्षिप्त वर्णन ।

तहसील: भोगनीपुर

जिला: कानपुर देहात

क्र० सं०	गाँव का नाम	गाटा सं.	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5
1	दौलतपुर	781 भाग	सरकारी	0.445
		770 भाग	सरकारी	0.369
		769 भाग	सरकारी	0.166
		768 भाग	सरकारी	0.388
		767 भाग	सरकारी	0.466
		766 भाग	सरकारी	0.004
		763 भाग	सरकारी	0.166
		560 भाग	निजी	0.263
		562 भाग	निजी	0.064
		566 भाग	निजी	0.049
		565 भाग	निजी	0.170
		567 भाग	निजी	0.178
		550 भाग	निजी	0.138
		549 भाग	निजी	0.348
		572 भाग	निजी	0.012
		573 भाग	निजी	0.020
		544 भाग	सरकारी	0.094
		576 भाग	निजी	0.437
		580 भाग	निजी	0.028
		581 भाग	निजी	0.020
		578 भाग	निजी	0.120
		582 भाग	निजी	0.980
		584 भाग	निजी	0.235
		587 भाग	निजी	0.250
		588 भाग	निजी	0.008
		589 भाग	सरकारी	0.020
		590 भाग	सरकारी	0.036
		598 भाग	सरकारी	0.040
		597 भाग	निजी	0.080
		596 भाग	निजी	0.072
		599 भाग	निजी	0.146
		595 भाग	सरकारी	0.020
		601 भाग	निजी	0.220
		602 भाग	निजी	0.040

1	2	3	4	5
		359 भाग	सरकारी	0.040
		358 भाग	निजी	0.092
		353 भाग	निजी	0.092
		354 भाग	निजी	0.024
		343 भाग	निजी	0.279
		342 भाग	निजी	0.008
		344 भाग	निजी	0.016
		338 भाग	निजी	0.0205
		345 भाग	सरकारी	0.008
		337 भाग	निजी	0.065
		332 भाग	निजी	0.061
		333 भाग	निजी	0.004
		302/2 भाग	निजी	0.205
		302/3 भाग	निजी	0.195
		302/4 भाग	सरकारी	0.024
		299 भाग	सरकारी	0.032
		298 भाग	निजी	0.012
		263 भाग	निजी	0.008
		265 भाग	निजी	0.023
		260 भाग	निजी	0.040
		266 भाग	निजी	0.051
		297 भाग	सरकारी	0.057
		264 भाग	निजी	0.020
		301 भाग	सरकारी	0.008
		563 भाग	सरकारी	0.002
		227 भाग	सरकारी	0.002
		295 भाग	सरकारी	0.345
		275 भाग	सरकारी	0.092
		293 भाग	सरकारी	0.266
		291 भाग	सरकारी	0.229
		292 भाग	सरकारी	0.102
		290 भाग	सरकारी	0.307
		289 भाग	सरकारी	0.010
		288 भाग	सरकारी	0.082
		285 भाग	सरकारी	0.102
		770 भाग	सरकारी	0.290
		769 भाग	सरकारी	0.056
		768 भाग	सरकारी	0.260
		767 भाग	सरकारी	0.088
		704 भाग	सरकारी	0.960
		560 भाग	निजी	0.480
		501 भाग	सरकारी	0.048

1	2	3	4	5
		561 भाग	सरकारी	0.024
		563 भाग	सरकारी	0.028
		562 भाग	सरकारी	0.066
		565 भाग	सरकारी	0.066
2	डिडौलिया	1 भाग	निजी	0.04
		2 भाग	निजी	1.133
		3 भाग	सरकारी	0.130
3	चौरा	177 भाग	सरकारी	0.012
		178 भाग	निजी	0.004
		227 भाग	सरकारी	0.020
		240 भाग	निजी	0.008
		241 भाग	सरकारी	0.004
		242 भाग	निजी	0.032
		246 भाग	सरकारी	0.004
		250 भाग	सरकारी	0.004
		251 भाग	निजी	0.020
		254 भाग	सरकारी	0.004
		258 भाग	सरकारी	0.028
		256 भाग	सरकारी	0.008
		263 भाग	सरकारी	0.016
		264 भाग	सरकारी	0.012
		265 भाग	सरकारी	0.004
		266 भाग	सरकारी	0.016
		267 भाग	निजी	0.008
		268 भाग	निजी	0.012
		285 भाग	निजी	0.036
		287 भाग	निजी	0.008
		229 भाग	निजी	0.009
		290 भाग	निजी	0.012
		137 भाग	निजी	0.003
		138 भाग	निजी	0.004
		228 भाग	निजी	0.009
		230 भाग	निजी	0.004
		231 भाग	निजी	0.005
		232 भाग	निजी	0.004
		233 भाग	सरकारी	0.005
		234 भाग	निजी	0.004
		235 भाग	सरकारी	0.002
		236 भाग	सरकारी	0.001
		243 भाग	सरकारी	0.025
		244 भाग	सरकारी	0.001
		255 भाग	सरकारी	0.020

1	2	3	4	5
4	करियापुर	506 भाग	निजी	0.004
		507 भाग	निजी	0.069
		557 भाग	निजी	0.020
		561 भाग	निजी	0.040
		563 भाग	निजी	0.032
		565 भाग	निजी	0.057
		566 भाग	निजी	0.024
		578 भाग	निजी	0.028
		605 भाग	निजी	0.036
		606 भाग	निजी	0.020
		609 भाग	सरकारी	0.005
		641 भाग	निजी	0.020
		640 भाग	निजी	0.012
		639 भाग	निजी	0.028
		638 भाग	निजी	0.182
		637 भाग	निजी	0.182
5	उदयपुर	334 भाग	निजी	0.016
		333 भाग	निजी	0.032
		330 भाग	निजी	0.045
		326 भाग	निजी	0.024
		325 भाग	निजी	0.020
		290 भाग	सरकारी	0.040
		283 भाग	निजी	0.008
		282 भाग	निजी	0.032
		281 भाग	निजी	0.016
		232 भाग	सरकारी	0.008
		231/338 भाग	सरकारी	0.008
		231 भाग	निजी	0.061
		230 भाग	निजी	0.024
		229 भाग	निजी	0.032
		228 भाग	निजी	0.028
		198 भाग	निजी	0.040
		197 भाग	निजी	0.032
		196 भाग	निजी	0.008
		277 भाग	सरकारी	0.032
6	पीपरी	66 भाग	निजी	0.057
		75 भाग	निजी	0.045
		76 भाग	निजी	0.032
		77 भाग	निजी	0.036
		49 भाग	निजी	0.032
		80 भाग	सरकारी	0.016
		81 भाग	सरकारी	0.008

1	2	3	4	5
		101 भाग	सरकारी	0.065
7	बुधेरा	201 भाग	निजी	0.012
		203 भाग	निजी	0.049
		204 भाग	निजी	0.024
		205 भाग	निजी	0.024
		208 भाग	निजी	0.110
		210 भाग	सरकारी	0.002
		209 भाग	निजी	0.148
		148 भाग	सरकारी	0.004
		176 भाग	निजी	0.181
		175 भाग	निजी	0.154
		181 भाग	सरकारी	0.004
8	भोगनीपुर	503 भाग	निजी	0.174
		504 भाग	निजी	0.206
		505 भाग	सरकारी	0.004
		506 भाग	सरकारी	0.004
		507 भाग	निजी	0.105
		569 भाग	निजी	0.020

[फा. सं. भारराप्रा/11014/तक./पूष-II/एलए/कोटा/2003]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport & Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2005

S.O. 216(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose the land, the brief description of which is given in the Schedule annexed hereto, is required for building (four - laning) of National Highway No. 25 from Km. 245.000 to Km. 255.000 in District Kanpur Dehat in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land for the aforesaid purpose;

Any person interested in the land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the use of the said land for the aforesaid purpose, under sub section (I) of section 3C of said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Additional District Magistrate, Kanpur Rural, Uttar Pradesh, in writing and shall set out the grounds thereof, and the said competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub- section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested persons, at the office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land with or without structures, falling within the stretch
from km 245.000 to km 255.000 in NH-25 in the State of Uttar Pradesh

Name of the Tehsil: Bhognipur

District: Kanpur Dehat

S. No.	Name of the Village	Gata No.	Type of Land	Area of Land in hect.
1	2	3	4	5
1	Daulatpur	781 Part	Government	0.445
		770 Part	Government	0.369
		769 Part	Government	0.166
		768 Part	Government	0.388
		767 Part	Government	0.466
		766 Part	Government	0.004
		763 Part	Government	0.166
		560 Part	Private	0.263
		562 Part	Private	0.064
		566 Part	Private	0.049
		565 Part	Private	0.17
		567 Part	Private	0.178
		550 Part	Private	0.138
		549 Part	Private	0.348
		572 Part	Private	0.012
		573 Part	Private	0.02
		544 Part	Government	0.094
		576 Part	Private	0.437
		580 Part	Private	0.028
		581 Part	Private	0.02
		578 Part	Private	0.12
		582 Part	Private	0.098
		584 Part	Private	0.235
		587 Part	Private	0.25
		588 Part	Private	0.008
		589 Part	Government	0.02
		590 Part	Government	0.036
		598 Part	Government	0.04
		597 Part	Private	0.08
		596 Part	Private	0.072
		599 Part	Private	0.146
		595 Part	Government	0.02
		601 Part	Private	0.22
		602 Part	Private	0.04
		359 Part	Government	0.04
		358 Part	Private	0.092
		353 Part	Private	0.092
		354 Part	Private	0.024
		343 Part	Private	0.279
		342 Part	Private	0.008
		344 Part	Private	0.016
		338 Part	Private	0.0205
		345 Part	Government	0.008
		337 Part	Private	0.065
		332 Part	Private	0.061
		333 Part	Private	0.004
		302/2 Part	Private	0.205
		302/3 Part	Private	0.195
		302/4 Part	Government	0.024
		299 Part	Government	0.032
		298 Part	Private	0.012
		263 Part	Private	0.008

1	2	3	4	5
		265 Part	Private	0.023
		260 Part	Private	0.04
		266 Part	Private	0.051
		297 Part	Government	0.057
		264 Part	Private	0.02
		301 Part	Government	0.008
		563 Part	Government	0.002
		227 Part	Government	0.002
		295 Part	Government	0.345
		275 Part	Government	0.092
		293 Part	Government	0.266
		291 Part	Government	0.229
		292 Part	Government	0.102
		290 Part	Government	0.307
		289 Part	Government	0.01
		288 Part	Government	0.082
		285 Part	Government	0.102
		770 Part	Government	0.290
		769 Part	Government	0.056
		768 Part	Government	0.260
		767 Part	Government	0.088
		704 Part	Government	0.960
		560 Part	Private	0.480
		501 Part	Government	0.048
		561 Part	Government	0.024
		563 Part	Government	0.028
		562 Part	Government	0.066
		565 Part	Government	0.066
2	Didoliya	1 Part	Private	0.04
		2 Part	Private	1.133
		3 Part	Government	0.13
3	Chaura	177 Part	Government	0.012
		178 Part	Private	0.004
		227 Part	Government	0.02
		240 Part	Private	0.008
		241 Part	Government	0.004
		242 Part	Private	0.032
		246 Part	Government	0.004
		250 Part	Government	0.004
		251 Part	Private	0.02
		254 Part	Government	0.004
		258 Part	Government	0.028
		256 Part	Government	0.008
		263 Part	Government	0.016
		264 Part	Government	0.012
		265 Part	Government	0.004
		266 Part	Government	0.016
		267 Part	Private	0.008
		268 Part	Private	0.012
		285 Part	Private	0.036
		287 Part	Private	0.008
		229 Part	Private	0.009
		290 Part	Private	0.012
		137 Part	Private	0.003
		138 Part	Private	0.004
		228 Part	Private	0.009
		230 Part	Private	0.004

1	2	3	4	5
		231 Part	Private	0.005
		232 Part	Private	0.004
		233 Part	Government	0.005
		234 Part	Private	0.004
		235 Part	Government	0.002
		236 Part	Government	0.001
		243 Part	Government	0.025
		244 Part	Government	0.001
		255 Part	Government	0.02
4	Kariyapur	506 Part	Private	0.004
		507 Part	Private	0.069
		557 Part	Private	0.02
		561 Part	Private	0.04
		563 Part	Private	0.032
		565 Part	Private	0.057
		566 Part	Private	0.024
		578 Part	Private	0.028
		605 Part	Private	0.036
		606 Part	Private	0.02
		609 Part	Government	0.005
		641 Part	Private	0.02
		640 Part	Private	0.012
		639 Part	Private	0.028
		638 Part	Private	0.182
		637 Part	Private	0.182
5	Udaipur	334 Part	Private	0.016
		333 Part	Private	0.032
		330 Part	Private	0.045
		326 Part	Private	0.024
		325 Part	Private	0.02
		290 Part	Government	0.04
		283 Part	Private	0.008
		282 Part	Private	0.032
		281 Part	Private	0.016
		232 Part	Government	0.008
		231/338 Part	Government	0.008
		231 Part	Private	0.061
		230 Part	Private	0.024
		229 Part	Private	0.032
		228 Part	Private	0.028
		198 Part	Private	0.04
		197 Part	Private	0.032
		196 Part	Private	0.008
		277 Part	Government	0.032
6	Pipri	66 Part	Private	0.057
		75 Part	Private	0.045
		76 Part	Private	0.032
		77 Part	Private	0.036
		49 Part	Private	0.032
		80 Part	Government	0.016
		81 Part	Government	0.008
		101 Part	Government	0.065
7	Budhera	201 Part	Private	0.012
		203 Part	Private	0.049
		204 Part	Private	0.024
		205 Part	Private	0.024
		208 Part	Private	0.11

1	2	3	4	5
		210 Part	Government	0.002
		209 Part	Private	0.148
		148 Part	Government	0.004
		176 Part	Private	0.181
		175 Part	Private	0.154
		181 Part	Government	0.004
8	Bhognipur	503 Part	Private	0.174
		504 Part	Private	0.16
		505 Part	Government	0.004
		506 Part	Government	0.004
		507 Part	Private	0.16
		569 Part	Private	0.02

[F. No. NHAI/11014/Tech/EW-II/LA/Kota/2003]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.